



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 504]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 1983/कार्तिक 23, 1905

No. 504]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 1983/KARTIKA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1983

का. आ. 806(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 14 नवम्बर, 1983 से मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम तथा मंदसौर के जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक. 1-12/82-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking (Division))

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th November, 1983

S.O. 806(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the

1022 GI/83—1

Central Government, on being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 14th, November, 1983 a Regional Rural Bank to the State of Madhya Pradesh under the name of Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the Districts of Ratlam and Mandsaur in the State of Madhya Pradesh.

[No. 1-12/82-RRB(I)]

का. आ. 807(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके, मंदसौर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक. 1-12/82-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Mandsaur as

(1)

the place where Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. 1-12/82-RRB (II)]

का. आ. 808(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-12/82-आर.आर.बी. (3)]

S.O. 808(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank, Mandsaur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. 1-12/82-RRB(III)]

का. आ. 809(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पी. आर. चौहान को रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14-11-83 से प्रारम्भ होकर 30-11-86 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री पी. आर. चौहान अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-12/82-आर.आर.बी. (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 809(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri P. R. Chauhan as Chairman of the Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank, Mandsaur and specifies

the period commencing on the 14-11-1983 and ending with the 30-11-1986 as the period for which the said Shri P. R. Chauhan shall hold office as such Chairman.

[No. 1-12/82|RRD(IV)]
ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

बम्बई, 14 नवम्बर, 1983

का. आ. 810(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये अर्थात् :—

“रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश)”

[आर.पी.सी.डी. सं. 264/आई.एन.सी.एल./3-11-83]
टी. एन. अनन्तराम इयर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

Bombay, the 14th November, 1983

S.O. 810(E).—In pursuance of clause (a) sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Ratlam-Mandsaur Kshetriya Gramin Bank, Mandsaur (M.P.)”.

[RPCD. No. 264|INCL|311-83]

T. N. ANANTHARAM IYER,
Executive Director.